

## हिन्दी पखवाड़ा

भारत सरकार की राजभाषा नीति/नियमों के अनुसरण में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए वर्ष भर कई समारोहों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' मनाया जाता है और इस सिलसिले में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा द्वीपसमूह में हिन्दी पखवाड़ा के दौरान 15 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इन द्वीपों में हिन्दी पखवाड़ा-2016 मनाए जाने के सिलसिले में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी विभागों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और 14 सितम्बर, 2016 को हिन्दी दिवस मनाया गया।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशासन के सभी कार्यालयों में बैनर लगाए गए। सचिव (राजभाषा) की अपील स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक शासकीय कार्य राजभाषा हिन्दी में करने की अपील की गई। इस सिलसिले में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा पोर्ट ब्लेयर के मुख्यालय क्षेत्र के तमिल, बंगला और तेलुगु माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता और पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय के सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वाकपटुता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा मुख्यालय क्षेत्र के महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्वरचित कविता पाठ आयोजित किया गया।

इस दौरान अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा नीति और नोडल अधिकारी(राजभाषा) के कार्यों तथा उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिन्दी में टीप लेखन, टिप्पण और आलेखन, टंकण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर, 2016 को प्रशासन के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में "हिन्दी दिवस विशेषांक" प्रकाशित किया गया जिसमें प्रशासन के विभागों में हिन्दी के प्रयोग और हिन्दी की स्थिति से सम्बन्धित लेख भी प्रकाशित किए गए। इसके अलावा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी पर तैयार फिल्म दिखलाई गई।

उपरोक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अनिन्दो मजूमदार (भा.प्र.से.) ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया।



हिन्दी पखवाड़ा-2016 के पुरस्कार वितरण करते हुए श्री अनिन्दो मजूमदार (भा.प्र.से.) मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन



हिन्दी पखवाड़ा-2016 के दौरान हिन्दी कार्यशाला में भाग लेते हुए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी



हिन्दी पखवाड़ा-2016 के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री रमेश वर्मा(भा.प्र.से.), सचिव (राजभाषा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन